



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, रविवार, मार्च 22, 1981/चैत्र 1, 1903  
No. 119] NEW DELHI, SUNDAY MARCH 22, 1981/CHAITRA 1, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
अभिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1981

बैंकिंग प्रभाग

क्र. आ. 203(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इन्डियन बैंक के अनुरोध पर 22 मार्च, 1981 से आंध्र प्रदेश राज्य में श्री वेङ्कटेश्वर ग्रामीण बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जोकि आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ. 1-28/80-आर.आर.बी. (1)]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)  
NOTIFICATIONS  
New Delhi, the 20th March, 1981  
Banking Division

S.O. 203(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Indian Bank, establishes, with effect from the 22nd March, 1981 a Regional Rural Bank in the State of Andhra Pradesh under the name of Shri Venkateswara Grammeena Bank which shall operate within the local limits of the district of Chittoor in the State of Andhra Pradesh.

[No. F 1-28/80-RRB(I)]

क्र. आ. 204(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा श्री वेङ्कटेश्वर ग्रामीण बैंक के प्रायोजक इन्डियन बैंक से परामर्श करके, चित्तूर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर श्री वेङ्कटेश्वर ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ. 1-28/80-आर.आर.बी. (2)]

S.O. 204(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Indian Bank, by which Shri Venkateswara Grammeena Bank has been sponsored, specifies Chittoor as the place where Shri Venkateswara Grammeena Bank shall have its head office.

[No. F. 1-28/80-RRB(II)]

क्र. आ. 205(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उप-खंड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, श्री वेङ्कटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तूर को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अभिसूचित करती है।

[संख्या एफ. 1-28/80-आर.आर.बी. (3)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

**S.O. 205(E).**—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Shri Venkateswara Grameena Bank, Chittoor being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-28/80-RRB(III)]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.

**भारतीय रिजर्व बैंक**

**(ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष)**

**अधीनस्थाना**

**बम्बई, 22 मार्च, 1981**

**क्र. आ. 206(अ).**—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अन्वय में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि

उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :—

“श्री वेण्कटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश)”

[आर.पी.सी.सी. संख्या 206/आई.एन.सी.एल./311-81]

एम. वी. हाटे, कार्यवाहक निदेशक

**RESERVE BANK OF INDIA**

**(Rural Planning and Credit Cell)**

**NOTIFICATION**

Bombay, the 22nd March, 1981

**S.O. 206(E).**—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India, Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Shri Venkateswara Grameena Bank, Chittoor (A.P.)”

[RPCC. No. 206/INCL/311-81]

M. V. HATE, Executive Director